

**Roll No. ....**

# **E-3226**

## **B. A. (Part II) EXAMINATION, 2021**

**MANAGEMENT**

**Paper Second  
(Statistics)**

**Time : Three Hours ] [ Maximum Marks : 75**

**नोट :** सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt all the *five* questions. *One* question from each Unit is compulsory. All questions carry equal marks.

**इकाई—1**

**(UNIT—1)**

1. सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। इसके कार्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए।

Define Statistics. Discuss its functions and importance.

**अथवा**

**(Or)**

प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की कौन-सी विधियाँ हैं ? इनमें से कौन-सी विधि अच्छी है और क्यों ?

What are the methods of collecting primary data ? Which of them is better and why ?

इकाई—2  
(UNIT—2)

2. केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप से क्या अभिप्राय है ? इसके क्या उद्देश्य एवं कार्य है ? आदर्श माध्य के गुणों को समझाइए।

What is the concept of measure of Central Tendency ? What are its objectives and functions ? Explain the properties of a good average.

अथवा

*(Or)*

निम्नलिखित श्रेणी का समान्तर माध्य, बहुलक तथा मध्यका ज्ञात कीजिए :

आय	व्यक्तियों की संख्या ( <i>f</i> )
100—200	15
100—300	33
100—400	63
100—500	83
100—600	100

Find out Arithmetic Mean, Mode and Median of the following series :

Income	No. of Persons ( <i>f</i> )
100—200	15
100—300	33
100—400	63
100—500	83
100—600	100

ઇકાઈ—3  
(UNIT—3)

3. અપકિરણ સે આપ ક્યા સમજતે હો ? અપકિરણ કી વિભિન્ન માપોં કે સાપેક્ષિક ગુણ વ અવગુણોં કા વિવેચના કીજિએ।

What do you understand by Dispersion ? Discuss the relative merits and demerits of various measures of dispersion.

અથવા

(Or)

નિમ્નલિખિત આવૃત્તિ-વિવરણ કે લિએ માધ્ય, પ્રમાપ વિચલન એવં ઇસકા ગુણાંક પરિકલિત કીજિએ :

વર્ગ	આવૃત્તિ
50—55	22
45—50	29
40—45	31
35—40	47
30—35	51
25—30	70

Calculate mean, standard deviation and its coefficient for the following frequency distribution :

Class	Frequency
50—55	22
45—50	29
40—45	31
35—40	47
30—35	51
25—30	70

इकाई—4  
**(UNIT—4)**

4. कार्ल पियर्सन सहसम्बन्ध गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसकी सीमाएँ बताइए। इसके गुण-दोष भी लिखिए।

Define Karl Pearson's correlation coefficient and give its limitations. Also state its merits and demerits.

अथवा

*(Or)*

एक कक्षा के 100 छात्रों के लिए सांख्यिकी (X) के अंकों की वाणिज्य

$$(Y) \text{ के अंकों का प्रतीपगमन समीकरण } X = \frac{3}{5}Y + \frac{180}{5} \text{ है। वाणिज्य}$$

के अंकों का माध्य 50 है और सांख्यिकी के अंकों का प्रसरण वाणिज्य के अंकों के प्रसरण का \frac{4}{9} है।

ज्ञात कीजिए :

- (i) सांख्यिकी के माध्य अंक
- (ii) X का Y पर प्रतीपगमन गुणांक
- (iii) सह-सम्बन्ध गुणांक

For 100 students of a class, the regression equation of marks in Statistics (X) on the marks in Commerce (Y) is

$$X = \frac{3}{5}Y + \frac{180}{5}. \text{ The mean marks in commerce is 50 and the}$$

variance of marks in statistics is  $\frac{4}{9}$  of the variance of marks in Commerce.

Find :

- (i) Mean marks in Statistics
- (ii) Regression coefficient of X on Y
- (iii) Coefficient of correlation

इकाई—5

**(UNIT—5)**

5. निर्देशांक का क्या अर्थ है ? निर्देशांक की रचना करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

What is Index Number ? What points should be taken into consideration in the construction of index number ?

अथवा

(Or)

निम्नलिखित आँकड़ों से फिशर निर्देशांक की रचना कीजिए :

मद	आधार वर्ष		चालू वर्ष	
	कीमत प्रति इकाई	कुल व्यय	कीमत प्रति इकाई	कुल व्यय
1	2	40	5	75
2	4	16	8	40
3	1	10	2	24
4	5	25	10	60

From the following data, construct Fischer's index number :

Item	Base Year		Current Year	
	Price per unit	Total Expenditure	Price per unit	Total Expenditure
1	2	40	5	75
2	4	16	8	40
3	1	10	2	24
4	5	25	10	60